

("Previously known as "Brand Realty Services Limited")

31<sup>st</sup> May, 2024

To,

The Secretary
BSE Limited
The Stock Exchange, Mumbai
Corporate Relationship Department
Phiroze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street, Mumbai- 400001

<u>Sub: Intimation under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015</u>

Ref: <u>TRADEWELL HOLDINGS LIMITED</u> (<u>Previously known as "Brand Realty Services Limited</u>") (ISIN: INE819G01012) (Scrip Code: 531203)

Dear Sir,

In pursuant to Regulation 47 (1) (b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Please find the enclosed copies of Audited Standalone Financial Results of the Company for the Fourth Quarter and Year ended on March 31st, 2024 published in newspaper viz. Financial Express (English Newspaper) & Jansatta (Hindi Newspaper) on 31<sup>st</sup> May, 2024.

This is for your information and records. Kindly take the same on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Tradewell Holdings Limited

Uma Kumari

(Company Secretary & Compliance officer)

Encl: As above

CIN:L85110TN1990PLC019545 Regd. Office: New No.70, (Old No. 149), Luz Church Road, Mylapore, Chennai-600004 Phone No. 044-42938938; Fax: 044-24993282; E-Mail: cmmhospitals@gmail.com, Website: www.cmmh.in

**Extract of Audited Financial Results (Standalone)** for the Quarter and Year ended 31st March, 2024 (Amounts in Lakhs except EPS)

	Quarter ended	Year ended	Year ended
PARTICULARS	31.03.2024	31.03.2024	31.03.2023
	Audited	Audited	Audited
Total Income from Operations	972.65	3867.50	3909.39
Net Profit / (Loss) from Ordinary Activities before tax	13.51	10.38	128.05
Net Profit / (Loss) from Ordinary Activities after tax	-44.26	-42.74	89.05
Total Comprehensive Income for the period	-46.88	-44.91	89.85
Equity Share Capital (Face value of Rs.10/- per share)	746.89	746.89	746.89
Reserves (excluding Revaluation Reserve)		-779.64	-734.73
Earnings Per Share (EPS)	0	0 3	- 3
(Face Value of Rs. 10/- per share)			
Basic EPS (in Rs.)	-0.59	-0.57	1.19
Diluted EPS (in Rs.)	-0.59	-0.57	1.19

## Notes:

- 1. The above results have been reviewed and recommended for adoption by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 30th May, 2024.
- 2. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter and Year ended on 31.03.2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and Year ended Financial Results are available on the Stock Exchange Website (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.cmmh.in).

CHENNAI MEENAKSHI MULTISPECIALITY HOSPITAL LIMITED Place: Chennai GOMATHI R Dated: 30th May, 2024 MANAGING DIRECTOR

# **AVASARA FINANCE LIMITED**

Regd: Bandra Hill View CHS, 3rd Floor, 85, Hill Road, Opp. Yoko Sizzler, Bandra (West), Mumbai 400050. CIN: L74899MH1994PLC216417

Extract of Standalone Audited Financial Results for the Quarter and year ended 31 March 2024 (Rs. In Lacs except earning per share)

Particulars	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
Particulars	(Audited)	(un-audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
Total income from operations (net)	115.02	9.34	19.25	133	32.23
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	22.59	5.18	7.46	21.68	2.85
Net Profit / (Loss) for the period before tax (After exceptional and/or extraordinary items)	22.59	5,18	7.46	21.68	2.85
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	22.59	5.18	7.46	21.68	2.85
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	22.59	5.18	7.46	21.68	2.85
Equity Share Capital	500.09	500.09	500.09	500.09	500.09
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				-254.55	-276.23
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)		**			
Basic	0.45	0.10	0.15	0.43	0.057
Diluted	0.45	0.10	0.15	0.43	0.057
Note :		0		20	V.


- The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites. - www.bseindia.com and Website of the The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of
- Directors in their meeting held on 30th May 2024 This Statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards), Rules
- 2015 (IND AS), prescribed under Section 133 of the Companies Act. 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable. For and on behalf of Board of Directors

TRC Financial Services Limited

Sabrinath Gopala Krishnan Whole time Director Place: Bangalore Date: 30 May 2024 DIN: 08479403

### SRM CONTRACTORS LIMITED CIN: U45400JK2008PLC002933

Registered Office: SECTOR-3 NEAR BJP HEAD OFFICE, TRIKUTA NAGAR, JAMMU, J&K - 180012; Tel: +91 84918 77114 / + 0191 2472729. Website: www.srmcpl.com; Email: cs@srmcpl.com



	for the would	er and rear En	ded mid	1011 31,2	2	-
in a	Ŷ		STANDALO	ONE	(Figu	res in Lakhs)
S. No.	Particulars		YEAR ENDED			
No.		31-03-2024	31-12-2023	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
		Audited	(Un-Audited)	Audited	Audited	Audited
1	Total income from operations	10,866.45	8,709.27	10,307.11	34,522.13	30,106.83
2	Profit before tax	798.84	521.60	973.08	2.981.61	2,546.78
3	Profit after tax	686.04	390.28	708.97	2,217.25	1,916.48

**Extract of Statement of Standalone Audited Financial Results** 

- Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of guarterly and year ended audited financial results (standalone and consolidated) filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (listing obligations and disclosure requirements) Regulations 2015. The full format of the quarterly and year ended audited financial results (standalone and consolidated) and respective audit reports are available on the website of the stock exchanges (www.bseindia.com, www.nseindia.com) and the website of the company (www.smcpl.com).
- The Board of directors have not recommended any dividend for the year 2023-24. The above results have been reveiwed and recommended by the audit committee and approved by the board of directors at their
- ris and disclosure requirements) Regulations 2015 and have bee subjected to audit by the statutory auditors of the company.

For and on behalf of the board of directors SRM Contractors Limited

5.53 b) Diluted

Sanjay Mehta (Managing Director) DIN: 02274498

(Ahmedgarh) District Sangrur, Punjab -148021. Phone Number: 0161-5059126. Email: rajiv\_ritesh2007@rediffmail.com Website: https://www.riteshinternationalltd.com/Email: cs\_riteshinternational@yahoo.com

Extracts of Standalone Audited Financial Results for the Quarter / Year ended 31st March, 2024

S. No	Particulars	Quarter ending 31.03.2024	Year Ended Figures 31.03.2024	Corresponding 3 months ended in the previous year 31.03.2823 (Baarterly)
1	Total Income from operations	2460.38	8365.91	1976.45
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	13.69	22.46	-129.33
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	11.67	5.83	-179.50
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-2.13	-7.97	-171.03
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) & Other Comprehensive Income (after tax)]	-2.13	-7.97	-171.03
6	Equity Share Capital	855.28	855.28	855.28
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in Audited Balance Sheet of the previous year)	975.36	975.36	982.11
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)			
9	Basic : Diluted :	-0.02 -0.02	-0.09 -0.09	-2.00 -2.00

under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the websites of the BSE (www.bseindia.com) and on the company's website (www.riteshinternationalitd.com). The above Financial Results have been reviewed by Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 30.05.2024. The above mentioned values are in Lakhs (Except for Earning per Share which is in Rupees) There is only one Segment, namely, Non edible Oils, which is the primary reportable segment By the order of Board of Directors

For Ritesh International Limited

Place: Ahmedgarh (Ritesh Arora) Date: 30.05.2024 DIN: 00080156 (Chairman-cum-Managing Director)

## **Megraj Holdings Private Limited**

CIN: U74140TG2022PTC167061 Reg. Office: Regd. Address: Office No: A1101, The Platina, 11th Floor, A-Block, Gachibowli, Hyderabad, Telangana - 500032

> **Statement of Standalone Audited Financial Results** for the year ended 31st March, 2024

S. No	PARTICULARS	Quarter ended 31-03-2024 (Audited)	Quarter ended 31-03-2023 (Audited)	Year ended 31-03-2024 (Audited)	Year ended 31.03.2023 (Audited)
1.	Total Income from Operations	523	- 1	1,570	
2.	Net Profit/ (Loss) for the period	(66,402)	(68)	(1,89,621)	(96)
3.	Net Profit/ (Loss) for the period before tax	(66,402)	(68)	(1,89,621)	(96)
4.	Net Profit/ (Loss) for the period after tax	(66,402)	(68)	(1,89,621)	(96)
5.	Total Comprehensive Income for the period	(66,402)	(68)	(1,89,621)	(96)
6.	Paid up Equity Share Capital	100	100	100	100
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	(1,89,717)	(96)	(1,89,717)	(95)
8.	Securities Premium Account	-	` -	1	-
9.	Net worth	(1,89,617)	4	(1,89,617)	5
10.	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	1,590,148	101	1,590,148	101
11.	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-	-
12.	Debt Equity Ratio	(8.39)	25.25	(8.39)	25.25
13.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) -	`			
	1. Basic:	(6,640.19)	(6.73)	(18,962.11)	(9.58)
	2. Diluted:	(6,640.19)	(6.73)	(18,962.11)	(9.58)
14.	Capital Redemption Reserve		` _	· _	
15.	Debenture Redemption Reserve	-	-	-	-
16.	Debt Service Coverage Ratio	(0.0010)	-	(0.02)	(0.95)
17.	Interest Service Coverage Ratio	(0.03)	-	(0.02)	

# Notes:

- a) The above Standalone Financial Results have been approved by Board of Directors in their meeting held on 29th May, 2024.
- b) The above is an extract of the detailed format of quarterly/annual financial results filed with the Stock Exchange(s) under regulation 52 of the Listing Regulations. The full format of the quarterly financial results is available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.bseindia.com) and the listed entity (www.megarajholdings.com).
- c) For the other line items referred in regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s) (BSE Limited) and can be accessed on the URL (www.bseindia.com).

For Megraj Holdings Private Limited

Place:Hyderabad Date:29.05.2024

Director

Sitarama Rajiv Chilakalapudi

## TRADEWELL HOLDINGS LIMITED (Formerly BRAND REALTY SERVICES LIMITED) CIN: L74110DL1995PLC064237 Regd. Off: S-8 & S-2, DDA SHOPPING COMPLEX, OPP. POCKET-I, MAYUR VIHAR-I. DELHI -110091

Tel.: 011-22755819 | Email Id: info@brandrealty.in | Website: https://www.brandrealty.in

**Statement of Audited Standalone Financial Results for the Fourth Quarter** & Year ended 31st March, 2024 (Rs. in Lacs except per share data)

	(NS. III Lacs except per silare data)								
	Q	uarter end	ed	Year E	Ended				
Particulars	31.03.2024	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2023	31.03.202				
	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited				
Total Income from Operations	3099.61	(17.22)	34.47	3166.54	103.99				
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	292.53	(40.40)	(44.06)	309.19	(48.74)				
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	292.53	(40.40)	(44.06)	309.19	(48.74)				
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	230.39	(40.40)	(35.63)	247.05	(40.31)				
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	230.39	(40.40)	(35.63)	247.05	(40.31)				
Paid up Equity Share Capital (of Rs. 10/- each)	300.44	300.44	300.44	300.44	300.44				
Other Equity Excluding Revaluation Reserves	0	0	0	0	0				
Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued operations)-									
Basic:	7.67	(1.34)	(1.19)	8.22	(1.34)				
Diluted:	7.67	(1.34)	(1.19)	8.22	(1.34)				

Place: Delhi

Date: 30.05.2024

- 1. The above is an extract of the detailed format of the Audited Standalone Financial Results for the Fourth Quarter and year ended 31st March, 2024 filed with the BSE under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results ended 31st March, 2024 is available on the BSE website (www.bseindia.com)and Company's website (https://www.brandrealty.in).
- The above Audited Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on 30th May, 2024.

For TRADEWELL HOLDINGS LIMITED

KAMAL MANCHANDA (WHOLETIME DIRECTOR) DIN: 00027889

Date : May 31, 2024

Place: Jammu

## PRIMO CHEMICALS LTD. (Formerly known as Punjab Alkalies & Chemicals Ltd.)

CIN: L24119CH1975PLC003607

Registered Office: SCO 125-127, Sector 17-B, Chandigarh, 160017

Corporate Office: Bay No.46-50, Sector 31-A, Chandigarh, 160030, Tel No. 0172-2801649, Email: secretarial@primochemicals.in, Website: www.primochemicals.in

	STANDALONE			STANDALONE St.					CONSOLIDATED			11
Quarter Ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter Ended 31.12.2023 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2023 (Audited)	Financial Year Ended 31.03.2024 (Audited)	Financial Year Ended 31.03.2023 (Audited)	10000	Particulars	Quarter Ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter Ended 31.12.2023 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2023 (Audited)		Financial Year Ender 31.03.2023 (Audited)	
10247.50	9142.87	14779.98	39698.02	70737.70	1	Total Income from operations (Net)	10247.50	9142.87	14779.98	THE CONTROL OF THE PARTY OF THE	70737.70	
542.39	369.88	736.39	1942.14	2616.25	2	Other Income	542.39	369.88	736.39	1942.14	2616.25	
10789.89	9512.75	15516,37	41640,16	73353.95	3	Total Income	10789.89	9512.75	15516.37	41640.16	73353.95	
(1049.76)	(880.33)	2509.39	(3142.51)	18649.80	4	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(1049.76)	(880.33)	2509.39	(3142.51)	18649.80	
(1049.76)	(880.33)	2509.39	(3142.51)	18649.80	5	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1049.76)	(880.33)	2509.39	(3142.51)	18649.80	
678.47	(1534.98)	1746.88	(2585.82)	13398.20	6	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	678,47	(1534.98)	1746.88	(2585.82)	13398.20	
	35	177.000	*************		7	Share of Profit / (Loss) in Associates	30.50	16.33	13.22	53.12	341.51	
678.47	(1534.98)	1746.88	(2585.82)	13398.20	8	Profit / (Loss) for the period	708.97	(1518.65)	1760.10	2532.70	13739.71	
679.01	(1558.29)	1716.21	(2594.92)	13275.80	9	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit/(loss) and other comprehensive income (after tax)	709.51	(1541.96)	1729.43	(2541.80)	13617.31	
4846.86	4846.86	4846.86	4846.86	4846.86	10	Paid up Equity Shares Capital	4846.86	4846.86	4846.86	4846.86	4846.86	
Rs.2/-	Rs.2/-	Rs.2/-	Rs.2/-	Rs.2/-		Face Value (In Rs.)	Rs.2/-	Rs.2/-	Rs.2/-	Rs.2/-	Rs.2/-	
	14	S.	29735.74	32283.67		Reserves excluding Revaluation Reserves Earnings/(Loss) per Equity Share (Rs.)				30379.35	32874.16	
0.28*	(0.63)*	0.72*	(1.07)	5.53		a) Basic	0.29*	(0.63)*	0.73*	(1.05)	5.67	

\*EPS not annualised.

(0.63)\*

0.72\*

(1.07)

0.28\*

with the Indian Accounting Standards (IND AS) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with relevant rules issued thereunder, other accounting principles generally accepted in India and guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India: 3. The figures of the previous period have been regrouped/ reclassified, wherever necessary. 4. The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the guarter and Year ended 31st March, 2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone & Consolidated Audited Financial Results for the quarter and Year ended 31st March, 2024, is available on the BSE Limited's website i.e. www.bseindia.com and Company's website i.e. www.primochemicals.in

Place : Chandigarh Date: May 30, 2024

financialexp.epapr.in

(0.63)\*

0.73\*



# ACE EXPORTS LIMITED 20/157, PATKAPUR, KANPUR-208 001, UTTAR PRADESH

# CIN: L19111UP1990PLC012053 # ISIN: INE781X01019

E-Mail id: aceexportsknp@gmail.com #Ph: +91 9453026677 www.aelknp.com Extract of Audited Financial Results for the quarter and Year ended 31st March, 2024 [In terms of Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

'ARII						- 15
	STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTE	R AND YEAR EN	DED 31ST MARC	H, 2024 (AMOUN	T IN RS. THOUSAN	DS)
r. No.	Particulars	17	QUARTER ENDE	D	YEAR ENDED	YEAR ENDED
		31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
		(Audited)	( Audited )	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total income from operations (net)	2,120.06	1,838.84	7,033.61	9,962.51	79,263.45
2	Net Profit for the Period before Tax, Exceptional and Extraordinary items	(3,504.50)	(2,445.17)	(1,094.24)	(12,882.15)	253.16
3	Net Profit for the Period before Tax (after Exceptional and Extraordinary items)	(3,504.50)	(2,445.17)	(1,094.24)	(12,882.15)	253.16
4	Net Profit for the Period after Tax (after Exceptional and Extraordinary items)	(3,504.50)	(2,445.17)	(1,094.24)	(12,882.15)	253.16
5	Total Comprehensive Income for the period Comprising Profit for the Period (after	(3,504.50)	(2,445.17)	(1,094.24)	(12,882.15)	253.16
	Tax) and other Comprehensive Income (After Tax)					
6	Paid-up equity share capital	53,928.00	53,928.00	53,928.00	53,928.00	53,928.00
7	Reserves excluding revaluation reserve	L - 5	-	- 1		- 1
8	Earnings per equity share for Continuing and Discontinuing Operations					
	Basic earnings per share	(0.06)	(0.45)	(0.02)	(0.24)	0.00
	Diluted earnings per share	(0.06)	(0.45)	(0.02)	(0.24)	0.00
Voto:	tu.					

1. The above is an extract of the detailed format of Audited Financial results for the Quarter and Year ended on 31st March, 2024, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (listing Obligations; ind Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above Result are available on the Stock Exchange website (www.msei.in) and the Company's website (www.aelknp.com) 2. The above Audited Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors in their meeting

ACE EXPORTS LIMITED Place:- Kanpur Date:- 30.05.2024

Sd/-R.S Roofi Waki (Managing Director) DIN: 00641653

Demand Notice Date of

Date & Amount Possession

20th December 2023 28.05.2024

**BAJAJ FINANCE LIMITED** Corporate Office: 3rd Floor, Panchshil Tech Park, Viman Nagar, Pune-411014, Maharashtra.

Branch Office: 2nd Floor, Sco-181/182 Sec-17 Huda, Jagadhari Yamuna Nagar Haryana POSSESSION NOTICE U/s 13(4) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security

Interest Act 2002. Rule 8-(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002. (Appendix-IV) Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of M/s BAJAJ FINANCE LIMITED (BFL) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with Rule 3 of the Security Interest Enforcement) Rules 2002, issued Demand Notice(s) to Borrower(s) / Co Borrower(s) / Guarantor(s) mentioned herein below to repay the amount mentioned in he notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower(s) /Co Borrower(s)/ Guarantor(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s) /Co Borrower(s)/ Guarantor(s) and the public in general that the undersigned on behalf of M/s Bajaj Finance Limited, has taken over the possession of the property described herein below in exercise of the powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8-(1) of the said rules. The Borrower(s) /Co Borrower(s)/ Guarantor(s) in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the below said

property and any dealings with the said property will be subject to the first charge of BFL for the amount(s) as mentioned herein under with future interest

All That Piece And Parcel Of The Non-

Description of Secured Asset

(Immovable Property)

Haryana-135001, East :- House Smt. Sashi Bala, Only)

agricultural Property Described As: "HOUSE Rs.31,17,594/-

Name of the Borrower(s) / Guarantor(s) (LAN No, Name of Branch) **Branch: YAMUNANAGAR** (LAN No. 6G5FSL83162946)

1. GAURAV PRODUCTS (Through its Proprietor/Authorised Signatory/Managing Director)(Borrower) Haryana-135001, cast - House Sh. Krishan Lal , North :- Road, 2. GAURAV KAPOOR (Co-Borrower) South :- Other Property

Amount in INR Thousands unless otherwise stated)

B

3. PURUSHOTAM DASS

(Co-Borrower) All The Above At H. No 664 Durga Garden, Jagadhari, Yamunanagar, Haryana-135001.

Date: 31.05. 2024 Place: YAMUNANAGAR

Authorized Officer Bajaj Finance Limited

NO-665, MC HOUSE TAX, NO-C-6/665, Durga (Rupees Thirty One Lac Seventeen

Garden, Tehsil-Jagadhari, Yamunanagar, Thousand Five Hundred Ninety Four

CIN: L92130MH1997PLC107871

Regd. Office: 1, Silver Croft, Off TPS III, Junction of 16th & 33rd Road, Bandra West, Mumbai - 400050 Extract of the Standalone & Consolidated Audited Results for the Quarter & Year ended 31st March, 2024

01-01-2024 01-01-2023 01-10-2023 01-04-2023 01-04-2022 01-01-2024 01-01-2023 01-10-2023 01-04-2023 01-04-2023 31-03-2023 31-12-2023 31-03-2024 31-03-2023 31-03-2024 31-03-2023 31-12-2023 31-03-2024 PARTICULARS Total Income from Operations 2.75 89.56 2.18 Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, (105.35) (3,914.75 (169,41) (658.09) (105.53) 13,914.87 (169.42)(4,459.63) Exceptional and/or Extraordinary items) 14,459,45 Net Profit/loss) for the period before tax. (105.36) (4,009.49) (169.42)jafter exceptional and/or Extraordinary items (169.41) (658.09) (4,631.39) (105.53) 14,009.61 (658.31 Net Profitilioss) for the period after tax (169.41) (197.19 (2,176.50) (169.42)(2.798.45) (after Exceptional and/or Extraordinary items 12,176.37 (2,798.28) Total Comprehensive income for the year (Comprising Profit)(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income Equity Share Capital (Face Value of Rs. 2/- per share) 1,148.73 1,148.73 1.148.73 Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- per share) Reserves (exclusing Revaluation Reserve) (1,858.20) (1,108.44) (1,661.18) (1,858.20) (1,108.44) (2,349.11) (1,599.13) (2,151.92)(1.599.13)Earnings per Share of Rs.27- each (for continuing and discontinued operations)

The above is extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filled with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other disclosure requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange website www.bsendia.com and www.nsendia.com and on the Company website www.bnevistass.com FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS. SUNIL MEHTA Place: Mumbal Date: 30.05.2024

युनियन बैंक

Union Bank

SCO 137-138, Sector 8-C, Chandigarh -160008

Stressed Asset Management Branch,

SALE NOTICE Date: 05.12.2023 Borrowers: 1. M/s Khan Brothers, Shop No. 17, Prem Nagar, Near Bata Showroom, Ambala City, Haryana – 134003.

2nd Address – Show Room No. 1-P, Sector 7, Cloth Market, Aggarsain Chowk, Ambala City, Haryana – 134003. Mr. Salman S/o Mohammad Irfan (Proprietor), House No. 620-A, Shalimar Colony, Ambala City, Haryana – 134003. 3. Mr. Baljeet Singh S/o Ratan Singh (Guarantor), House No. 97, Ghail Khurd, Ambala City, Haryana – 134003. Sir/Madam. SUBJECT: SALE OF PROPERTY BELONGING TO MR. BALJEET SINGH S/O RATAN SINGH FOR

FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 Union Bank of India, Stressed Asset Management Branch, Chandigarh, the secured creditor, caused a demand notice dated 07.09,2023 under Section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002, calling upon you to pay the dues within the time stipulated therein.

REALIZATION OF AMOUNT DUE TO BANK UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF

Since you failed to comply with the said notice within the period stipulated, the Authorized Officer, has taken possession of the movable and immovable secured assets under Section 13(4) of the Act read with Rule 6 and Rule 8 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 06.01.2023. Even after taking possession of the secured assets , you have not paid the amount due to Bank. As such , it has become necessary to sell the below mentioned property by holding public e- auction after 30 days from the date

of receipt of this notice through online mode. The date and time of e auction along with the reserve price of the property and the details of the service provider in which the e auction to be conducted, shall be informed to you separately. Therefore, if you pay the amount

due to the bank along with subsequent interests, costs, charges and expenses incurred by the Bank before the date of publication of sale notice, no further action shall be taken for sale of the property and you can redeem your property as stipulated in section 13 (8) of the Act. SCHEDULE OF THE PROPERTY Land situated in Khewat/Khatoni No. 90/123, Khasra No. 31//24/1, Rakba 3-15, situated at Mauja Ghel,

Hadbast No. 52, Tehsil & District Ambala as per Jamabandi for the year 2011-2012, measuring 4/5 equal share of 5 Marla 3 1/2 Sarsai Yours faithfully, Authorized Officer

Loan A/c. No. & Name of the Borrower /

... | Co-Borrowers Property Holders as the case

Place: Chandigarh

Date: 25.05.2024 UNION BANK OF INDIA SMFG India Home Finance Company Ltd.

SMFG (Formerly Fullerton India Home Finance Co. Ltd.) Grihashakti - Corporate. Off.: 503 & 504, 5th Floor, G-Block, Insigne BKC, BKC Main Road, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051, MH. Regd. Off. : Megh Towers, Flr. 3, Old No. 307, New No. 165, Poonamatee High Road, Maduravoyal, Chennai-600 096, Tamil Nadu. DEMAND NOTICE

JNDER THE PROVISIONS OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 ("the Act") AND THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 ("the Rules") The undersigned being the Authorized Officer of SMFG India Home Finance Company Ltd. (Formerly Fullerton India Home Finance Co. Ltd.) (hereinafter referred to as SMHFC) under the Act and in exercise of the powers conferred under Section 13(12) the Act read with Rule 3 issued Demand Notice(s) under Section 13(2) of the Act, calling upon the following borrower(s) to repay the amount mentioned in the respective notice(s) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The undersigned reasonably believes that borrower(s) is / are avoiding the service of the Demand Notice(s), therefore the service of notice is being effected by affixation and publication as per Rules. The contents of Demand Notice(s) are extracted herein below :-

Description Of Secured Assets / Mortgage

No.	may be	Property	(2) & Total O/s.
1.	Add.: Bhukhand No. 02, Khasra 200 Ka,	Bhukhand No. 02, Khasra 200 Ka, Vill. Shahpur, The. / Pargana : Lucknow, Distt. Lucknow. Admeasuring : 1300 Sq. Fit 120.817 Sq. Mtr. > Boundaries as Per Sale Deed : •East : House; •West : Road 21' Fit Wide; •North : Vacant Plot; •South : Road 20' Fit Wide.	Dated: 11.05.2024  ₹ 45,32,627/- (Rs. Forty Five Lakh(s) Thirty Two Thousand Six Hundred Twenty Seven Only) as on 10.05.2024  NPA DATE: 07.05.2024
2.	LAN: 610539511205060  1. Ratna Singh, Wo. Ram Kishor Verma.  2. Sagar Singh, Sto. Ram Kishor Verma  Add.: E-133, EWS Swarn Nagari, Kanpur, Near Police Chowki, Kanpur, Uttar  Pradesh-208 011.	Free Hold House No. E-133 (Admeasuring Area : 35.64 Sq. Mtr.) Situated At Block E. W. S., Phase-7 Scheme, Swarn Nagari, Kanpur Nagar. > Boundaries as Per Sale Beed : *East : 20'7"/ Plot, Which is The Part 6 of Plot No. 7; *West : 21'7" / Road; *North : 22'5" / Plot, Which is The Part-4 of Plot No. 7; *South : 22'5" Mandir.	Dated: 11.05.2024  ₹ 17,22,873/- (Rs. Seventeen Lakh(s) Twenty Two Thousand Eight Hundred Seventy Three Only) as on 09.05.2024 NPA DATE: 07.05.2024

hereinabove within 60 days from the date of this publication together with applicable interest, additional interest, bounce charges, cost and expenses till the date of realization of payment. The borrower(s) may note that SMHFC is a secured creditor and the loan facility availed by the Borrower(s) is a secured debt against the immovable property / properties being the secured asset(s) mortgaged by the borrower(s). In the event borrower(s) are failed to discharge their liabilities in full within the stipulated time, SMHFC shall be entitled to exercise all the rights under section 13(4) of the Act to take possession of the secured assets(s) including but not limited to transfer the same by way of sale or by invoking any other remedy available under the Act and the Rules thereunder and realize payment. SMHFC is also empowered to ATTACH AND / OR SEAL the secured assets(s) before enforcing the right to sale or transfer. Subsequent to the Sale of the secured assets(s), SMHFC also has a right to initiate separate legal proceedings to recover the balance dues, in case the value of the mortgaged properties is insufficient to cover the dues payable to the SMHFC. This remedy is in addition and independent of all the other remedies available to SMHFC under any other law.

further to Section 13(13) of the Act, whereby the borrower(s) are restrained / prohibited from disposing of or dealing with the secured asset(s) or transferring by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of business) any of the secured asset(s) without prior written consent of SMHFC and non-compliance with the above is an offence punishable under Section 29 of the said Act. The copy of the Demand Notice is available with the undersigned and the borrower(s) may, if they so desire, can collect the same from the undersigned on any working day during normal office hours.

(Formerly Fullerton India Home Finance Co. Ltd.)

Managing Director

5.67

Notes: 1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board in its meeting held on 30th May, 2024, 2. The above extracts of audited financial results of the Company have been prepared in accordance For and on behalf of the Board

(1.05)

New Delhi

Place: Lucknow / Kanpur Nagar, U. P. (Naveen Chopra) Date: 11.05.2024

The attention of the borrower(s) is invited to Section 13(8) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets and

Authorized Officer.

SMFG INDIA HOME FINANCE COMPANY LIMITED

Dt. of Demand Notice U/s. 13

निदेशक मंडल के आदेश से

आर्कोटेक लिमिटेव के लिए

जी डी एल लीजिंग एंड फाइमेंस लिमिटेड CIN: L74899DL1994PLC057107 पंजीकृत कार्यालय: 206, द्वितीय तल, वर्धमान हायमंड प्लाजा, प्लॉट नंबर ३, डीडीए कम्युनिटी सेंटर, डी.बी गुप्ता रोड, मोतिया खान, पहार गंज, नई दिल्ली ११००५५

		2	शिलाख में (ईपी	एस को छोड़कर)
क. सं.	विवरण	31.03.2024 को समाप्त तिमाही	दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष	तदनुसार ३१.०३.२०२३ को समाप्त तिमाही
		अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेश्चित
1	प्रचालन से कुल आय	18.92	42.88	8.63
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर से पहले असाधारण और/या असामान्य मदों पर )	12,96	13.94	0.35
3	कर से पहले की अवधि के लिए खुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और/या असामान्य मदी के बाद)	12.96	13,94	0.35
4	कर पश्चात की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या असामान्य मदों के बाद)	9.33	10.31	0.03
5	अवधिके लिए कुल व्यापक आयं [लाभ/(हानि) अवधिके लिए (करके बांद) और अन्य व्यापक आयं (करके बांद)]	9.33	10.31	0,03
6	इक्विदी शेयर पूंजी (र 10 प्रति शेयर)	301,01	301.01	301.0
7	आरक्षित निधि (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष की ऑडिटेड बैलेंस श्रीट में दर्शाया गया है		. 99000	5000-1
8	प्रति शेयर आय (रु. १०/- प्रत्येक) १. बेसकि: २. डायल्युटिड:	0.00	034 034	0.00

एक्सचेंजों में दाखिल तिमाही और वार्षिक वितीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। वितीय परिणामी का परा प्रारूप स्टॉक एक्सचेन की वेबसाइटों पर उल्लिखित URL पर उपलब्ध है: https://www.bseindig com/corporates/anndet\_new.aspx?newsid=9805401a-fc86-404f-afda-406604ce3179 छ) उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और २९.०५.२०२४ को आयोजित संबंधित बैठक में निदेशक महल हारा अनुमोदित किया गया है।

स्थान-नई दिल्ली

दिनांक-30.05.2024

Place: Delhi

Date: 30.05.2024

कृते जी डी एल लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड

एसडी/-प्रेम कुमार जैन (अतिरिक्त निदेशक)

### Brahmaputra Infrastructure Limited Regd. Off.: Brahmaputra House, A-7, Mahipalpur (NH-8 Crossing), New Delhi-110 037 CIN: L55204DL1998PLC095933, Email: cs@brahmaputragroup.com, Phone No. 011-42290200 Audited Standalone Financial Results for Year Ended March 31, 2024 (Rs. In Crores Except EPS Quarter ended Year ended **Particulars** 31-Mar-24 | 31-Dec-23 | 31-Mar-23 31-Mar-24 31-Mar-23 Audited Audited Audited Audited Reviewed Total Income from operations (net) 52.89 42.75 221.11 179.04 48.78 47.35 40.95 202.07 167,48 Total Expenses Profit/(loss) before exceptional items and tax 5.54 1.80 19.04 5.22 11.56 4 Profit/ loss before tax 5.22 5.54 1.90 19.04 11.47 Tax Expenses 0.73 0.26 (0.49)1.86 0.61 4.50 10.87 6 Profit/(loss) for the year 5.28 2.39 17.18 Total Comprehensive Income for the year 4.52 5.29 2.42 17.21 10.90

Note: These are extract of Audited Results filed with Bombay Stock Exchange, complete version of the results are available a www.bsewebsite.com and on the official website of company at www.brahmaputragroup.com For Brahmaputra Infrastructure Limited

Raktim Acharjee Place: New Delhi Whole Time Director Date: 30.05.2024 Din: 06722166

29.02

1.56

29.02

1.82

29.02

0.84

29.02

143.69

5.93

29.02

126.48

3.76

# आर्कोटेक लिमिटेड

CIN: L34300HR1981PLC012151 पंजी. कार्यालय : 181, सेक्टर-3, औद्योगिक विकास केंद्र, बावल, जिला-रेवाड़ी, हरियाणा 123501 वेबसाइट : www.arcotech.in, ईमेल: contact@arcotech.in दूरभाष: 0128-4264160 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडअलोन) के विवरण के अंश (प्रति शेयर आय को छोडकर रु. लाख में राशि)

क्रम सं.	विवरण	तिमाही समाप्त 31.03.2024 (अंकेक्षित)	तिमाही समाप्त 31.12.2023 (अनअंकेक्षित)	तिमाही समाप्त 31.03.2023 (अंकेक्षित)	वर्ष समाप्त 31.03.2024 (अंकेंब्रित)	वर्ष समाप्त 31.03.2023 (अंकेक्षित)
d.	संचालन से कुल आय (शुद्ध)	W (#) W	1 - SY		- F.	
=%	अवधि के लिए शुद्ध लाग / (हानि) (कर से पहले. असाधारण और या असाधारण मदी)	(14,352.30)	(836.72)	(9,470.60)	(16,870.77)	(12,014.99)
3.	कर के पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण मदौं के बाद)	(14,352.30)	(836.72)	(9,470.60)	(16,870,77)	(12,014.99)
4.	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाम / (हानि) (असाधारण और / या असाधारण नदों के बाद)	(11,840.81)	(836.72)	(5,671.34)	(14,359.28)	(8,215.73)
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (इस अवधि के लिए लाम / (हानि)(कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल हैं]	(11,840.67)	(836.72)	(5,670.98)	(14,359.14)	(8,215.37)
6.	हकिटी शेयर पूंजी	2100	2100	2100	2100	2100
7.	अन्य इक्विटी	-	100	-	(22,399,33)	(8040.19)
8.	प्रति शेयर आय (रु. 2/-प्रत्येक) मूल (रुपये) तरल (रुपये)	(11.28) (11.28)	(0.80) (0.80)	(5.40) (5.40)	(13.68) (13.68)	(7.82) (7.82)

1. उपरोक्त वितीय परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीका की गई, तथा 30 मई, 2024 को आयोजित बैठक में मिदेशक मंत्रल द्वारा

अनुमांदित किए गए। 2. उपरोबत विवरण सेबी (सवीयन दायित्व तथा अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंओं के साथ दायर तिमाही और वार्षिक वितीय परिणामों के विस्तृत प्रारुप का एक उद्धारण है। तिमाही और वार्षिक वितीय परिणामों का संपूर्ण प्रारुप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com और www.nseindia.com तथा कम्पनी की वेबासाइट www.arcotech.in पर भी उपलब्ध हैं।

राधानाच पटनायक स्थानः नई दिवसी पूर्णकालिक निदेशक तिबि 30.05.2024 Din: 01189370

## TRADEWELL HOLDINGS LIMITED (Formerly BRAND REALTY SERVICES LIMITED)

CIN: L74110DL1995PLC064237 Regd. Off: S-8 & S-2, DDA SHOPPING COMPLEX, OPP. POCKET-I, MAYUR VIHAR-I, DELHI -110091

Tel.: 011-22755819 | Email Id: info@brandrealty.in | Website: https://www.brandrealty.in Statement of Audited Standalone Financial Results for the Fourth Quarter & Year ended 31st March, 2024

(Rs. in Lacs except per share data)								
	Q	uarter end	ed	Year E	Inded			
Particulars		31.03.2022 (Audited)			31.03.2023 (Audited)			
Total Income from Operations	3099.61	(17.22)	34.47	3166.54	103.99			
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	292.53	(40.40)	(44.06)	309.19	(48.74)			
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	292.53	(40.40)	(44.06)	309.19	(48.74)			
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	230.39	(40.40)	(35.63)	247.05	(40.31)			
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	230.39	(40.40)	(35.63)	247.05	(40.31)			
Paid up Equity Share Capital (of Rs. 10/- each)	300.44	300.44	300.44	300.44	300.44			
Other Equity Excluding Revaluation Reserves	0	0	0	0	0			
Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued operations)-								
Basic :	7.67	(1.34)	(1.19)	8.22	(1.34)			
Diluted:	7.67	(1.34)	(1.19)	8.22	(1.34)			
Notes:  1. The above is an extract of the detailed	ad format of	the Audites	l Standalan	o Einancial	Doculto for			

The above is an extract of the detailed format of the Audited Standalone Financial Results for the Fourth Quarter and year ended 31st March, 2024 filed with the BSE under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results ended 31st March, 2024 is available on the BSE website (www.bseindia.com)and Company's website (https://www.brandrealty.in).

2. The above Audited Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on 30th May, 2024.

For TRADEWELL HOLDINGS LIMITED

8 Paid- up Equity share capital

9 Reserves excluding Revaluation Reserve as per Balance sheet of previous accounting year

10 Earnings per share (Before & after extraordinary Items)

**KAMAL MANCHANDA** (WHOLETIME DIRECTOR) DIN: 00027889

## **PNO Housing** शाखा कार्यालय:- सी2/21, प्रथम तल, सी-ब्लॉक, माता चानन देवी रोड, जनकपुर, नई दिल्ली -110058 कब्जा-सूचना (अचल संपत्ति <u>हेत्)</u>

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के नियम 8(1) के अनुपालन में, और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रत्येक खाते के सम्मुख निर्दिष्ट तिथियों को उधारकर्ता/ओं को, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि/ नोटिस की तारीख से 60 दिवसों के अंदर, सूचना में वर्णित राशि के प्रतिभुगतान हेत्, एक मांग सूचना निर्गत की थी। उधारकर्ता राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ता /ओं को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें

निम्न विवरणित संपत्ति का उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत प्रत्येक खाते के सम्मुख निर्दिष्ट तिथियों को कब्जा ग्रहण कर लिया है। उधारकर्ता /ओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन

राशि तथा ऋण समझौते के अनुसार उस पर ब्याज हेतु पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा। अधिनयम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में,उधारकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

	<ul><li>ऋण खाता</li><li>संख्या</li></ul>	उधारकर्ता /सह— उधारकर्ता/गारंटर का नाम	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	कब्जा लेने की तिथि	गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण
	NHL/JAN/ 1. 1019/750744, बी.ओ: जनकपुरी,	श्री शिवम कुमार एवं श्रीमती पुष्पा देवी	13072021	रु. 13,19,173 40 / —(रुपये तेरह लाख उन्नीस हजार एक सौ तिहत्तर और चालीस पैसे मात्र)	27.05.2024 (भौतिक)	संपत्ति संख्या एआर–203, 2, द्वितीय तल, अजनारा आर्केड कमर्शियल, प्लॉट संख्या सी 05, क्रॉसिंग रिपब्लिक, एनएच –24, ABSEIT कॉलेज, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201009 स्थित सम्पति का सम्पूर्ण भाग एवं अंश।
1	ष्थानः जनकपरी	दिनांक: 30-05-20	124	प्राधि	कत अधिकारी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	

# Calcom

# कैल्कॉम विजन लिमिटेड

पंजी, कार्यालयः सी-41, ढिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110024 ईमेल आईडीः corp.compliance@calcomindia.com | वेबसाइटः www.calcomindia.com

CIN:- L92111DL1985PLC021095 | संपर्क सं0: 0120-2569761 को जागान निवासी और नर्ब के दिया अंक्रेकिन विकास समिताओं का विजय

			1	समेकित				
季.	विवरण		त्रमाप्त तिमाः	n	समाप	समाप्त वर्ष		
₹ĺO.		31.03.24 अं के दितत	31.12.23 अनंकेशित	31.03.23 अंके सित	31.03.24 अंके सित	31.03.23 अं के क्षित	31.03.24 अंके शित	
5.	प्रचालनों से कुल आय	4805.37	4111.75	4742.33	16162.90	16095.09	16162.90	
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (कर से पहले, विशेष और/या असाधारण मदें)	144.24	9.08	250.33	216.19	807.54	216.19	
3.	कर से पहले जबधि के लिए शुद्ध लाम/ (डानि) (विशेष और/या जसाधारण मर्दे के बाद)	144.24	9.08	250.33	216.19	807.54	212.33	
4.	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाग/ (हानि) (विशेष और/या असाधारण मर्दे के बाद)	81.37	3.64	147.65	132.06	564.62	128.20	
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाग/डानि (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल)	105.54	27.39	174.60	214.16	640.53	210.30	
6.	इक्किटी शेयर पूंजी (प्रत्येक का अंकित मूल्य रू. 10/- पूर्ण भुगतान किया गया)	1345.65	1345.65	1279.18	1345.65	1279.18	1345.65	
7.	पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोडकर रिजर्व	*	9	- 5	3333.97	2208.33	3330.11	
8.	प्रति इक्विटी शेयर आय (प्रत्येक रू. 10/-) ("वार्षिकीकृत नहीं)							
	– बेसिक	0.61*	0.03*	1.16*	0.99	4.42	0.97	
	<ul><li>डायल्यृटिड</li></ul>	0.59*	0.03*	1.13*	0.95	4.32	0.93	

टिप्पणीः

स्थानः ग्रेटर नोएडा

तिथिः 30 मई, 2024

उपरोक्त सेबी (सूचीयन अनिवार्यताऐ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाऐ) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज में दर्ज की गई समाप्त त्रैमासिक और वार्षिक वितीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का उद्धरण है। 30.05.2024 को आयोजित बैठक में विस्तृत त्रैमासिक परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के वितीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानि www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट यानि www.calcomindia.com पर भी उपलब्ध हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार कृते कैल्कॉम विजन लिमिटेड हस्ता/-एस. के. मलिक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

### VIKAS LIFECARE LIMITED CIN - L25111DL1995PLC073719

REGD OFF: G-1, VIKAS HOUSE, 34/1. EAST PUNJABI BAGH, NEW DELHI -110026,

PH NO: 011-40450110 EMAIL - info@vikaslifecarelimited.com

		AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS					Figures in Lacs AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS					
Sr. No.		Three Months Ended			Year Ended		Three Months Ended			Year Ended		
	Particulras	31-Mar-24 31-Mar-2		- Pro-	31-Mar-24	31-Mar-23	31-Mar-24	31-Mar-23	31-Dec-23	31-Mar-24	31-Mar-23	
		Audited	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited	Audited	Unaudited	Audited	Audited	
1	Total Income	12,788.84	8,415,16	9,809.25	44,288.88	43,440.71	13,627.18	8,626.42	10,237.28	47,190.23	44,818.72	
2	Total Expenses	12,437.72	11,819.99	10,020.81	41,964.04	45,591.30	13,001.50	11,866.50	10,538.47	44,793.36	46,959.58	
3	Profit Before Exceptional Items and Tax	351.12	(3,404.83)	(211.56)	2,324.83	(2,150.59)	625.69	(3,240.08)	(301.19)	2,396.87	(2,140.86	
4	Profit/ (Loss) Before Tax		(3,404.83)	(211.56)	2,324.83	(2,150.59)	(62.86)	(3,235.91)	(301.19)	1,708.32	(2,136.69	
5	Tax Expense/(Benefits):		(200) 50	200 20	-) - ///	0112 1103	100			92	+ http://doi.org/10.1001	
	i. Current Tax	14.05	21.09	86.18	236.85	347.49	26.67	40.32	86.18	249.47	366.42	
	ii. Deferred Tax	155,56	(829.42)		155.56	(961.94)	113.44	(819.62)	(0.51)	113.44	(952.14	
3	iii. Previous Year Income Tax	174					- 1	224.91	-	1		
	Total Tax Expense (i+ii+iii)	169.61	(808.33)	86.18	392.40	(614.45)	140.11	(554.39)	85.67	362.91	(585.72	
6	Net Profit/(Loss) from continuing operations	181.51	(2,596.51)	(297.74)	1,932.43	(1,536.14)	(202.98)	(2,681.52)	(386.87)	1,345.42	(1,550.97	
7	Profit/(loss) for the period	181.51	(2,596.51)	(297.74)	1,932.43	(1,536.14)	(202.98)	(2,681.52)	(386.87)	1,345.42	(1,550.97	
8	Total Other Comprehensive Income	(225,26)	(203.65)	(18.21)	(122.93)	(291.06)	(233.36)	(199.18)	(18.22)	(131.02)	(288.89	
9	Total comprehensive income (Comprising Profit (Loss) and Other Comprehensive Income for the period)	(43.75)	(2,800.16)	(315.96)	1,809.51	(1,827.20)	(436.34)	(2,880.70)	(405.09)	1,214.39	(1,839.85	
10	Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs.1 each)	16,523.36	14,391,01	14,391.01	16,523.36	14,391.01	16,523.36	14,391.01	14,391.01	16,523.36	14,391.01	
11	Reserve excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year	31,630.84	18,684.81	20,864.62	31,630,84	18,684,81	31,145.56	18,737.39		31,145.56	18,737.39	
	Earning per Equity Share: Equity shares of par value Rs 1 each (EPS for three and nine months ended periods are not annualised)											
	Basic	0.01	(0.18)	(0.02)	0.12	(0.12)	(0.03)	(0.20)	(0.03)	0.09	(0.13	
	Diluted	0.01	(0.18)	(0.02)	0.12	(0.12)	(0.03)	(0.20)	(0.03)	0.08	(0.13	

The above audited standalone financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held in May 29, 2024. The Statutory auditors have carried out a audit of the results for the quarter and year ended March 31, 2024.

The results of the Company are also available for investors at www.vikaslifecarelimited.com, www.bseindia.com and www.nseindia.com

For Vikas Lifecare Limited

Place: New Delhi Date: 31.05.2024 Sundeep Kumar Dhawan Managing director DIN:09508137

# ROLLATAINERS LIMITED

CIN No.: L21014HR1968PLC004844

Regd. Off.: PLOT NO. 73-74, PHASE- III, INDUSTRIAL AREA, DHARUHERA, DISTRICT- REWARI REWARI HR 123106 IN Tel: +91-0124-243326,242220; Email: cs.rollatainers@gmail.com: website: www.rollatainers.in

EXTRACT OF THE STATEMENT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON MARCH 31,2024

											(Rs. in Lakhs
			S	CONSOLIDATED							
	EC - 60 - 60	Quarter ended			Year Ended		Quarter ended			Year Ended	
S.NO.	Particulars	ulars 31.03.2024 31.12.2023 (Audited) (Un-Audited)		31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.12.2023 (Un-Audited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)
1	Total Income from operations	34.32	32.76	84.63	117.60	135.49	55.06	52.56	122.29	196.95	213.35
2	Profit/(Loss) before share of profit /(Loss) of associates and joint venture, exceptianal items and tax	0.84	0.46	60.42	(21.69)	0.45	(160.08)	4.28	43.99	(196.72)	(249.53)
3	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	0.84	0.46	60.42	(21.69)	0.45	(160.08)	4.28	43.99	(196.72)	(249.53)
4	Net Profit/ Loss for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	0.84	0.46	60.42	(21.69)	0.45	(156.48)	6.19	(17.32)	(138.26)	(2,074.17)
5	Net Profit for the period after tax from continuing business (after exceptional and/or extraordinary items)	0.84	0.46	60.42	(21.69)	0.45	(156.48)	6.19	(17.32)	(138.26)	(2,074.17)
6	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	0.84	0.46	60.42	(21.69)	0.45	(156.48)	(1,506.44)	(17.32)	(1,650.88)	(2,074.17)
7	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 1/- each)	2,501.30	2,501.30	2,501.30	2,501.30	2,501.30	2,501.30	2,501.30	2,501.30	2,501.30	2,501.30
8	Earnings per Share (Face Value of Re 1/- each) for continuing operations)										
(a)	Basic	0.00	0.00	0.02	(0.01)	0.00	(0.06)	(0.54)	0.00	(0.59)	(0.74)
(b)	Diluted	0.00	0.00	0.02	(0.01)	0.00	(0.06)	(0.54)	0.00	(0.59)	(0.74)

Notes to financial results:

- 1 The above audited financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee on 29th May, 2024 and subsequently have been approved by the Board of Directors of the company at their meeting held on 29th May, 2024.
- 2 The Financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Scolion 133 of Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of regulations of the SEBI (listing obligations and disclosure requirements) Regulations, 2015 (as amended).


During the year, company has shown expense under the head Exceptional Items as detailed below:

Stand alone Consolidated **Particulars** 0.00 58.46 i) Balances written back

- During the financial year, the subsidiary company has decided to sell its land and building, which were originally acquired for the purpose of production and manufacturing. In compliance with Ind AS 5, Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations, these assets have been have been reclassified from property, plant, and equipment to non-current assets held for sale. The sale of these assets is anticipated to be completed within the next financial year. No liabilities are associated with these assets.
- 5 The Statement includes the results for the guarter ended March 31, 2024 being the balancing audited figures in respect of the full financial year ended March 31, 2024, and the published unaudited yearto-date figures up to December 31, 2023, being the date of the end of the third guarter of the current financial year, which were subjected to a limited review as required under the Listing Regulations
- The consolidated financial statements include financial statements of the subsidiaries RT Packaging Ltd. and JV Rollatainers Toyo Machines Pvt. Ltd. (struck off) and Oliver Engineering Private Limited(till
- September, 2023). The Company's business activities which are primarily leasing and related activities falls within a single reportable segment as the management of the Company views the entire business activities as single segment. Accordingly, there are no additional disclosures to be furnished in accordance with the requirement of Ind AS 108 — Operating Segments with respect to single reportable segment. Also,
- therefore there are no reportable geographical segment. The Company's accumulated losses as on 31st March, 2024 stands at Rs.12,286.93 lakhs. The Group's accumulated losses as on 31st March, 2024 stand at Rs. 20,942.12 lakhs. However, these
- financial results have been prepared on the going concern basis as the management is confident on the Company's ability to continue as a going concern for a foreseeable future. Subsequent to the year end, Board of Directors of the Company in their meeting on 20th April 2024, had proposed for issue of 11,76,47,070 convertible equity warrants to certain non-promoter entities on a preferential basis at Rs 1.70/- each, aggregating to Rs. 2.000 lacs. This proposal was approved by shareholders in an extraordinary general meeting on 16th May 2024. The Company is in the process of
- getting regulatory approval for the same. 10 Subsequent to the year end, Board of Directors of the Company in their meeting on 10th May 2024, have proposed variation/alteration in the terms of preference shares of the Company as below: (a) Allotment of 53,63,984 10% Compulsorily Convertible Preference Shares (CCPS) of Rs. 1/- each in lieu of existing 1,40,000, 10% Redeemable Non-Convertible Preference Shares (RNCPS) of Rs. 100 each. (b) Allotment of 3,83,14,176 2% Compulsorily Convertible Preference Shares (CCPS) of Rs. 1/- each in lieu of existing 10,00,000, 2% Redeemable Non-Convertible Preference Shares (RNCPS)
- of Rs. 100 each. The Extraordinary general meeting for this proposal is scheduled to be held on 05th June 2024. The Company is in the process of getting regulatory approval for the same. 11 Previous year figures have been regrouped and rearranged wherever necessary to make them comparable with those of current year.

For Rollatainers Limited Aarti Jain

Date: 29th May 2024 Place: New Delhi



DIN: 00143244 Chairperson